



**THE INSTITUTE OF
Company Secretaries of India**
भारतीय कम्पनी सचिव संस्थान
IN PURSUIT OF PROFESSIONAL EXCELLENCE
Statutory body under an Act of Parliament
(Under the jurisdiction of Ministry of Corporate Affairs)

प्रेसविज्ञप्ति

ब्यूरोकेप्रमुख

2 नवंबर, 2020

आई सी एस आई ने हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग (C.G) के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए



इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया ने छत्तीसगढ़ की माननीय राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके की सौम्य उपस्थिति में हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग, छत्तीसगढ़ के साथ शैक्षणिक सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

अकादमिक सहयोग का उद्देश्य आई सी एस आई और विभिन्न विश्वविद्यालयों और राष्ट्रीय संस्थानों के बीच ज्ञान का आदान प्रदान करना और छात्रों, शिक्षाविदों और पेशेवरों के कौशल को बढ़ावा देना है। सहयोग के तहत, इन विश्वविद्यालयों / संस्थानों के विशिष्ट कार्यक्रमों के टॉपर्स को आई सी एस आई सिग्नेचर अवार्ड गोल्ड मेडल और कंपनी सेक्रेटरी कोर्स करने के लिए छात्रवृत्ति देना है।

समझौता ज्ञापन संयुक्त शैक्षिक अनुसंधान, संयुक्त कार्यशालाओं, व्यावसायिक विकास और संकाय विकास कार्यक्रमों के साथ-साथ संसाधनों के सम्मेलनों, कार्यशालाओं और सेमिनारों में व्यापक भागीदारी की सुविधा भी प्रदान करेगा।

इस अवसर पर दोनों संस्थानों को बधाई देते हुए, छत्तीसगढ़ की माननीय राज्यपाल, सुश्री अनुसुईया उइके ने कहा, "यह सहयोग क्षेत्र के छात्रों और शिक्षकों के लिए नए अवसर लाएगा। मैं इस क्षेत्र के अन्य विश्वविद्यालयों से अपील करती हूँ कि वे इस क्षेत्र के व्यावसायिक विकास के लिए आई सी एस आई जैसे प्रमुख राष्ट्रीय संस्थानों के साथ अकादमिक समझौता ज्ञापन करें।

इस तरह के सहयोग की आवश्यकता पर जोर देते हुए, आई सी एस आई के अध्यक्ष, सी एस आशीष गर्ग ने कहा, "यह समझौता न केवल दोनों साझेदार संस्थानों के बीच संबंधों को बढ़ावा देने में मदद करेगा बल्कि छात्रों के व्यावसायिक विकास के लिए कार्यकारी शिक्षा कार्यक्रमों को भी बढ़ावा देगा।

कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा विभाग के सचिव श्री धनंजय देवांगन, दुर्ग जिले के एन एस एस अधिकारी और स्वयं सेवक, 138 महाविद्यालयों के प्राचार्य और छत्तीसगढ़ के 125 गाँवों के सरपंच, पंच और महिला मंडलों के सदस्यों की उपस्थिति देखी गई।

प्रीति कौशिक बनर्जी

निदेशक

कॉर्पोरेट संचार और अंतर्राष्ट्रीय मामले

दूरभाष: 011-4534 1022

ई-मेल: preeti.banerjee@icsi.edu